



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/E/21/00063

दिनांक: 16 February, 2021

SHRI MANOJ OOMMEN GEORGE,
PUTHENVILAYIL HOUSE, KODAL P. O, PATHANAMTHITTA DISTRICT, Pin:689693,
KERALA

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 4 February, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।


उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.एन.डे.भौमिक,
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी विकास) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571790,2863616

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह) 16/02/21

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub.: Reply to RTI Query by Shri Manoj Oommen George, Kerala.

Query

Sir I am applying for RTI to get the details of 400 megawatt line which is in my land. The tower of this high tension line is in my plot. I would like to know how many meters should be left from the tower and line to construct a building. Please let me know what I can do in the rest of the land. So please give me a RTI to know the details and what I can do in the rest of the land. Thanking you.

Reply

The information sought by the requester is general in nature and do not pertain specifically to any transmission line of POWERGRID. However, it may be informed that CEA's Regulations for "Measures relating to Safety and Electric Supply, 2010" inter-alia stipulate that no building shall be constructed under an existing overhead line. Further, in case of an overhead line conductor passing above or adjacent to any building or part of a building, the minimum electrical clearances are stipulated.

The above Regulations are available in public domain and can be accessed from the web site of Central Electricity Authority (CEA) via following link:-

<https://cea.nic.in/regulations-category/measures-relating-to-safety-and-electric-supply/>

---x---

